## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

## त्यौहार अग्रिम के अनुदान का आवेदन APPLICATION FOR GRANT OF FESTIVAL ADVANCE

FI

13

<del></del>		пашт	कर्मी संख्या
नाम		पदनाम	
Name		Designation	Emp. No.
			2 2
वर्तमान मूल वेतन		विदनकर्त्ता की स्थिति स्थायी है या अस्थायी	
Present Basic Pay		Status of applicant ten	nporary or permanent
त्यौहार जिसके लिए अग्रिम मंतव्य है			
Festival for which advance desired			
क्या आवेदनकर्ता ने चानु वर्ष में पहले कभी कोई त्यौहार			
अग्रिम लिया है? Whether applicant has drawn			
any festival advance earlier during the			
current calendar year ?			
क्या पिछले वर्ष ली गई त्यौहार अग्रिम की पूरी तरह कटौती हो			
चुकी है या नहीं ? यदि नहीं, तो विवरण दें।			
Whether festival advance drawn in prev	ious		
year has been fully recovered or not. If			
give particulars.			
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान व ि	विश्वास	से खरे हैं। I certify that the facts stat	ed above are true to the best
	of my	knowledge and belief.	
हस्ताक्षर	विभाग	/ अनुभाग	दिनांक
Signature	Dept	/Section	Date
-			
<ul> <li>कार्यालय आदेश सं. DOM/DG(७२) दिनाँक १४ सितम्बर १९६९ के तहत केवल उन्हीं आवेदनों को अनुदान हेतु लिया जाएगा जो लेखा विभाग में उस त्यौहार से १० दिन पहले प्राप्त हुआ हो।</li> <li>In terms of office order no. DOM/DG (72) dated 14 Sept 1969 only applications received in Accounts Department at least 10 days before the date on which festival falls will be considered for grant of advance.</li> <li>यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से जामिन बाँड दें.</li> <li>If temporary, a surety bond from a permanent BIS employee be furnished</li> </ul>			
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whic २. यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज	2) date ch festi गामिन बाँउ	d 14 Sept 1969 only applications rec val falls will be considered for grant c इ दें.	eived in Accounts Department
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whic २. यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज	2) date ch festi गामिन बाँउ	d 14 Sept 1969 only applications rec val falls will be considered for grant c इ दें.	eived in Accounts Department
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whic २. यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज	2) date ch festi गमिन बाँग nanent	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant o इदें. BIS employee be furnished	eived in Accounts Department
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whic २. यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a perm	2) date ch festi गामिन बाँउ nanent जामिन	d 14 Sept 1969 only applications rec val falls will be considered for grant c इ दें.	eived in Accounts Department
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on which यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a perm	2) date ch festi नामिन बाँज nanent जामिन जामिन इनकर्ता अ erman	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हैं. BIS employee be furnished  न बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is	eived in Accounts Department of advance.
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on which यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a perm	2) date ch festi नामिन बाँज nanent जामिन जामिन इनकर्ता अ erman	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हैं. BIS employee be furnished  न बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is	eived in Accounts Department of advance.
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on which यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a perm	2) date ch festi गामिन बाँ nanent जामिन इनकर्ता अ erman ने को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ दें.  BIS employee be furnished <b>F बाँड/SURETY BOND</b> स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is <mark>धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ</mark>	eived in Accounts Department of advance. s temporary. गिप्रम को रू राशी को
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice a पदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a permanent approach and the completed by a put the co	2) date ch festi गामिन बाँ nanent जामिन इनकर्ता अ erman ने को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ दें.  BIS employee be furnished <b>F बाँड/SURETY BOND</b> स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is <mark>धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ</mark>	eived in Accounts Department of advance. s temporary. गिप्रम को रू राशी को
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice a पित अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a permoderate a permoderate and the completed by a put of the completed by a put	2) date ch festi गामिन बाँ nanent जामिन जामिन इनकर्ता अ erman ो को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant os हैं.  BIS employee be furnished <b>म बाँड/SURETY BOND</b> स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धृकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्योहार अ	eived in Accounts Department of advance. s temporary. गिप्रम को रू राशी की का कोई भाग उनके वेतन से काटना सशेष
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice a पित अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a permoder	2) date ch festi ग्रामिन बाँक nanent जामिन बाँक नकर्ता अ erman	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ दें. BIS employee be furnished  अ बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ - को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसव	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice a पित अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a permoderate a permoderate and the completed by a put of the completed by a put	2) date ch festi ग्रामिन बाँउ nanent जामिन उन्निकर्ता अ erman ो को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ .  BIS employee be furnished  F बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धुकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार उ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्ण granted to Shri/Smt.	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice and least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days before the date on whice a least 10 days least 10	2) date ch festi ग्रामिन बाँउ nanent जामिन उन्निकर्ता अ erman ो को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ .  BIS employee be furnished  F बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धुकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार उ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्ण granted to Shri/Smt.	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date on whice are at least 10 days before the date of the days are at least 10 days before the date of the days are at least 10 days days days days days days days days	2) date ch festi नामिन बाँ nanent जामिन नकर्ता अ erman ो को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ हैं. BIS employee be furnished  म बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता प्राप्त है प्राप्त अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्राप्त करता अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.  गिंगम को रू राशी की का कोई भाग उनके बेतन से काटना सशेष  Delhi to recover from my pay in case
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice are as a variety before the date on whice are as a variety being from a permental of the morary, a surety bond from a permental order of the morary, a surety being from a permental order of the morary of the analysis of the advance or any part thereof remains the second of the second order of the morary of the advance or any part thereof remains the second of the second order of the second order of the advance or any part thereof remains the second of the second order o	2) date ch festi ग्रामिन बाँज nanent जामिन बाँज nanent जामिन वाँज nanent जामिन को प्राप्त के प्राप	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ हैं. BIS employee be furnished  म बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता प्राप्त है प्राप्त अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्राप्त करता अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.  गिप्रम की रू राशी की का कोई भाग उनके वेतन से काटना सशेष  Delhi to recover from my pay in case  दिनांक
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice are as a variety before the date on whice are as a variety being from a permental of the morary, a surety bond from a permental order of the morary, a surety being from a permental order of the morary of the analysis of the advance or any part thereof remains the second of the second order of the morary of the advance or any part thereof remains the second of the second order of the second order of the advance or any part thereof remains the second of the second order o	2) date ch festi गामिन बाँज nanent जामिन बाँज nanent जामिन वाँज nanent जामिन को प्रा	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ हैं. BIS employee be furnished  म बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कमीं को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता प्राप्त है प्राप्त अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्राप्त करता अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसविष्टा प्राप्त करता है प्	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.  गिप्रम की रू राशी की का कोई भाग उनके वेतन से काटना सशेष  Delhi to recover from my pay in case  दिनांक
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice र यदि अस्थायी है तो भा. मा. ब्यूरो के किसी स्थायी कर्मी से ज If temporary, a surety bond from a perm यदि आवेद To be completed by a p मैं,, भा. मा. ब्यूरो, नई दिल्ली कटौती करने के लिए जो श्री/श्रीमितरह गया हो। I,authothe amount of Festival Advance of Rs. the advance or any part thereof remains हस्ताक्षर Signature	2) date ch festi fill fill fill fill fill fill fill fi	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ दें.  BIS employee be furnished  F बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार उ-को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसवि ureau of Indian Standards, New granted to Shri/Smt covered from his/her salary.	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.  गिम को रू राशी की का कोई भाग उनके बेतन से काटना सशेष  Delhi to recover from my pay in case  दिनांक Date
पहले प्राप्त हुआ हो। In terms of office order no. DOM/DG (72 at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice a urity and it is a urity at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice and the urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice a urity at least 10 days before the date on whice and the urity at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days before the date on whice at least 10 days days days days days days days days	2) date ch festi fill fill fill fill fill fill fill fi	d 14 Sept 1969 only applications recoval falls will be considered for grant of हुँ हैं.  BIS employee be furnished  F बाँड/SURETY BOND स्थायी हो तो किसी स्थायी कर्मी को भरना चाहिए ent employee, in case the applicant is धकृत करता/करती हूँ, मेरे वेतन से त्यौहार अ - को अनुदान दिया गया है यदि अग्रिम या उसव् ureau of Indian Standards, New granted to Shri/Smtcovered from his/her salary.	eived in Accounts Department of advance.  s temporary.  गिप्रम की रू राशी की का कोई भाग उनके वेतन से काटना सशेष  Delhi to recover from my pay in case  दिनांक  Date  कर्मी संख्या